

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 390]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 30 अगस्त 2014—भाद्र 8, शक 1936

गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2014

क्र. एफ 31-3-2014-दो-ए(3).—विभाग की अधिसूचना एफ 31-3-2009-दो-ए(3) भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2009 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के व्यवस्थापन एवं पुनर्वास समामेलित विशेष निधि की राज्य प्रबंध समिति में मनोनीत अशासकीय सदस्य एयर वाइस मार्शल (से.नि.) ए. विक्रम पेठिया एवं ब्रिगेडियर (से.नि.) जी. एस. संधू का कार्यकाल समाप्त होने के फलस्वरूप उनके स्थान पर निम्नलिखित सेवानिवृत्त सैनिक अधिकारियों को राज्य शासन, एतद्द्वारा, अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत करता है :—

1. मेजर जनरल, एस. आर. सिन्हो
ई-2/170, अरेरा कालोनी, भोपाल, पिन-462016
2. श्री आर. एन. प्रसाद
मकान न. 709, अरविंद विहार, बागमुगालिया, भोपाल.

उपरोक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.